

प्रेस नोट दिनांक 31.01.2021
थाना बिशारतगंज जनपद बरेली।

थाना बिशारतगंज #bareillypolice द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्त दिलशाद को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 300 ग्राम नाजायज अफीम बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बरेली द्वारा जनपद बरेली में अवैध मादक द्रव्य/स्वापक औषधि के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, श्रीमान क्षेत्राधिकारी आंवला के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक बिशारतगंज जनपद बरेली के निर्देशन में आज दिनांक 31.01.2021 को दिलशाद पुत्र कदीर निवासी मझगवा हाल निवासी वार्ड नंबर 9 कस्बा व थाना बिशारतगंज जनपद बरेली को समय 10:30 बजे अलीगंज बिशारतगंज मार्ग कब्रिस्तान के पास से तीन सौ ग्राम नाजायज अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना बिशारतगंज जनपद बरेली पर मु0अ0सं0-18 /21 धारा 8/18एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वह दिनांक 21.12.2020 को थाना मुरैना जिला रूपनगर पंजाब में 505 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया था तथा जेल भेजा गया था। यह अफीम तस्करी हेतु राजीव पुत्र हरस्वरूप निवासी मझगवां द्वारा दी गई थी। इन्होंने कई बार तस्करी हेतु अफीम दिया था। अभियुक्त ने यह भी बताया कि राजीव कई लोगों से तस्करी करवाता हैं। वह गांव के राजपाल किसान पुत्र राम दुलारे को भी तस्करी हेतु अफीम दिया था, जो नारकोटिक्स विभाग लखनऊ द्वारा 1 किलो अफीम के साथ दिनांक 08.01.2021 को पकड़ा गया है। इसी मामले में नारकोटिक्स विभाग लखनऊ द्वारा राजीव को भी 11.01.2021 को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस द्वारा अभियुक्त दिलशाद के तस्दीक हेतु पत्र नारकोटिक्स विभाग द्वारा राजीव कुमार की तस्दीक हेतु पत्र भी प्राप्त हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दिलशाद पुत्र कदीर निवासी मझगवा हाल निवासी वार्ड नंबर 9 कस्बा व थाना बिशारतगंज जनपद बरेली।

बरामदगी-

1- 300 ग्राम नाजायज अफीम

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 18 /21 धारा 8/18एनडीपीएस एक्ट।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री बृज किशोर मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना बिशारतगंज जनपद बरेली।
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बिशारतगंज जनपद बरेली।
3. हे0का0 सत्यप्रकाश थाना बिशारतगंज जनपद बरेली।

सोशल मीडिया सेल
जनपद बरेली